

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर  
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-73/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर, जिला-रायगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. किरोड़ीमलनगर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	इंदिरा आवास वार्ड
2	जिंदल नगर वार्ड
3	आजाद नगर वार्ड
4	मिनी नगर वार्ड
5	शौकी नगर वार्ड
6	विजय नगर पूर्व वार्ड
7	विजय नगर पश्चिम वार्ड
8	नान्हू नगर वार्ड
9	उच्च भिट्टी रोड वार्ड
10	शांति नगर वार्ड
11	कोकडीतराई पूर्व वार्ड
12	कोकडीतराई पश्चिम
13	किरोडीमल नगर वार्ड
14	रेल्वेलाईन पारा वार्ड
15	केबिन पारा वार्ड

### किरोडीमलनगर, नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### इंदिरा आवास वार्ड क्रं. 01

- उत्तर — चंदन चौहान के घर से परदेशी चौहान घर होते हुये ओमप्रकाश मिश्रा घर से जेएसपीएल बाउण्ड्री तक
- पूर्व — जेएसपीएल बाउण्ड्री ओम प्रकाश मिश्रा घर से महेश सिंह घर होते हुये नाला तक
- दक्षिण — नाला से आंगनबाड़ी शिवनाथ पाण्डेय घर से दीप नारायण घर होते हुये हरिराम सिदार घर तक
- पश्चिम — हरिराम सिदार घर चिराईपानी सीमा से चंदन चौहान घर चिराईपानी सीमा तक

#### जिंदल नगर वार्ड क्रं. 02

- उत्तर — जिंदल नगर क्वार्टर नं. 12 राजेन्द्र राय के मकान से जिंदल नगर क्वार्टर नं. 01 रामनरेश घर पानी टंकी होते हुये सोमप्रकाश पाल जिंदल नगर क्वार्टर से जेएसपीएल बाउण्ड्री होते हुये जिंदल नगर क्वार्टर नं. 60 छोटेलाल गौतम घर होते हुये बेरियल एसटीपी कालोनी ब्लॉक एफ जेवीजी 81 तक
- पूर्व — जेवीजी 81 से एसटीपी कालोनी होते हुये एसटीपी ब्लॉक जेवीजी 145 जिंदल बिहार फेस 02 तक

- दक्षिण - जिंदल बिहार फेस 02 होते हुये पंचायत कर्मचारी आवास के पीछे तिवारी घर होते हुये सुरेश सिंह घर होते हुये अरविंद गिरी घर तक
- पश्चिम - अरविंद गिरी घर से आजाद चौक मेन रोड होते हुये जिंदल नगर बेरियल प्लांट के किनारे किनारे उत्तर में जिंदल नगर क्वार्टर नं. 12 राजेन्द्र राय घर तक

#### आजाद नगर वार्ड क्रं. 03

- उत्तर - शरीफ खान घर से शनी मंदिर होते हुये यशपाल घर तक
- पूर्व - यशपाल घर से अपना किराना होते हुये शराब दुकान तक
- दक्षिण - शराब दुकान से मेन रोड होते हुये मुख्य मार्ग आजाद चौक होते हुये ज्योती मेडिकल स्टोर तालाब धाट होते हुये शिव चौहान घर तक
- पश्चिम - शिव चौहान घर से तेरस बाई घर होते हुये शरीफ खान घर तक

#### मिनी नगर वार्ड क्रं. 04

- उत्तर - विनोद जोशी डेम किनारे घर से मणीकचन केन्द्र होते हुए दिनेश चंद्रा घर तक
- पूर्व - दिनेश चंद्रा घर से राजकुमार कर्ष घर होते हुए मोती सिंह चंद्रा घर तालाब किनारे तक
- दक्षिण - मोती सिंह चंद्रा घर तालाब किनारे होते हुए नाला के पास अंसारी घर होते हुए रामायण चौक तक
- पश्चिम - रामायण चौक से विनोद जोशी घर डेम किनारे तक

#### शौकी नगर वार्ड क्रं. 05

- उत्तर - संतोष कुमार घर से डेम किनारे किनारे जाधव सुअर पालन घर तक
- पूर्व - जाधव सुअर पालन से रामायण चौक होते हुए किशन चम्राकर घर होते हुए रमाकांत मड़िया घर टावर तक
- दक्षिण - रमाकांत मड़िया घर टावर से जयशंकर सोनवानी घर गणेश चौक मेनरोड तक
- पश्चिम - जयशंकर सोनवानी घर से गणेश चौक होते हुए संतोष कुमार घर डेम तक

#### विजय नगर पूर्व वार्ड क्रं. 06

- उत्तर - अमृत जैन घर से जीवनाथ मिश्रा घर तालाब तक
- पूर्व - जीवनाथ मिश्रा घर से पटेल मेडिकल मेनरोड तक
- दक्षिण - पटेल मेडिकल मेनरोड से नंदकुमार यादव घर होते हुए एम.एस पाण्डेय घर होते हुए गौरीशंकर साहू घर तक
- पश्चिम - गौरीशंकर साहू घर से राशिद खान घर होते हुए अमृत जैन घर तक

#### विजय नगर पश्चिम वार्ड क्रं. 07

- उत्तर - मोहम्मद हासिम अंसारी घर से श्रीकांत घर तक।
- पूर्व - श्रीकांत घर से चंदन शर्मा घर होते हुए थलेश्वर चौहान घर उच्चभिट्टी रोड मुख्य मार्ग तक।

- दक्षिण — उच्चभिट्टी रोड मुख्य मार्ग में थलेश्वर चौहान घर से विश्वकर्मा फेब्रिकेशन तक।  
 पश्चिम — विश्वकर्मा फेब्रिकेशन से दुलार चौधरी घर होते हुए मोहम्मद अंसारी घर तक।

#### नान्हू नगर वार्ड क्रं. 08

- उत्तर — रम्भा राजभर घर से कैलाश विश्वाल घर होते हुये रोशन किराना स्टोर से छत्तीसगढ़ ट्रेडर्स तक।  
 पूर्व — छत्तीसगढ़ ट्रेडर्स से दुर्गा मंदिर अटल चौक तक  
 दक्षिण — दुर्गा मंदिर अटल चौक से मेन रोड होते हुये हनुमान मंदिर होते हुये त्रिलोचन सिदार घर तक।  
 पश्चिम — त्रिलोचन सिदार घर से फुलचंद मरावी, नारायण पटेल घर के पीछे होते हुये रम्भा राजभर घर तक

#### उच्चभिट्टी रोड वार्ड क्रं. 09

- उत्तर — कौशिक प्रसाद सिंह मेन रोड गणेश चौक से मुन्ना वर्मा घर तक  
 पूर्व — मुन्ना वर्मा घर से प्रहलाद सिदार घर मेन रोड क्रॉस करते हुये नागेश्वर घर होते हुये सोहन लाल साहू घर तक  
 दक्षिण — सोहन लाल साहू घर से रेल्वे ट्रेक होते हुये मदरसा रेल्वे ट्रेक तक  
 पश्चिम — मदरसा रेल्वे ट्रेक से मॉ अम्बे क्लिनिक सरदार चौक होते हुये कौशिक प्रसाद सिंह घर तक

#### शांती नगर वार्ड क्रं. 10

- उत्तर — कमल पति भुईयां घर से मेन रोड होते हुये नाज फैन्सी स्टोर तक  
 पूर्व — नाज फैन्सी स्टोर से स्वामी विवेकानंद स्कूल तक  
 दक्षिण — स्वामी विवेकानंद स्कूल से कुंदन सिंह घर होते हुये दिनबंधु सिंह घर तक  
 पश्चिम — दिनबंधु सिंह घर से कमलपति भुईयां घर तक

#### कोकडीतराई पूर्व वार्ड क्रं. 11

- उत्तर — मुरारी सिदार घर से मुख्य बस्ती होते हुये कोना पारा से तुलाराम चौहान घर सुलभ शौचालय तक  
 पूर्व — तुलाराम चौहान सुलभ शौचालय से जिंदल बाउण्ड्रीवाल होते हुये भागीरथी चौहान घर बंजरंग बली मंदिर तक  
 दक्षिण — भागीरथी चौहान घर बंजरंग बली मंदिर से शासकिय उचित मुल्य दुकान कोकडीतराई 02 तक  
 पश्चिम — शासकिय उचित मुल्य दुकान कोकडीतराई 02 से मुरारी सिदार घर तक

#### कोकडीतराई पश्चिम वार्ड क्रं. 12

- उत्तर — अमृत काम्पलेक्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के बाजू से होते हुये नगर पंचायत के बाजू गली से मोहन चौहान घर होते हुये राम मेहर घर पानी टंकी तक  
 पूर्व — राम मेहर घर पानी टंकी से आनंद चौरसिया घर होते हुये तुलाराम घनेश्वर गोड़ घर होते हुये शांती लाल सिदार घर से नीलाम्बर सिदार घर तक

- दक्षिण — नीलाम्बर सिदार घर से न्यू जिंदल आर्दश ग्राम्य भारती स्कूल के पीछे से होते हुये सेवा सहकारी समिति धान मण्डी तक
- पश्चिम — सेवा सहकारी समिति धान मण्डी से मेन रोड होते हुये अटल चौक से अमृत काम्पलेक्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक

#### किरोड़ीमलनगर वार्ड क्रं. 13

- उत्तर — हरिश चंद्र निषाद घर से शारदा पब्लिक स्कूल दादू दयाल मंदिर होते हुये खेल मैदान होते हुये ग्राम्य भारती स्कूल तक
- पूर्व — ग्राम्य भारती स्कूल से राईस मील संत विनोबा स्कूल होते हुये पी.सी.राय घर रेल्वे कालोनी रेल्वे ट्रेक तक
- दक्षिण — पी.सी.राय घर रेल्वे कालोनी रेल्वे ट्रेक से रेल्वे स्टेशन रेल्वे ट्रेक होते हुये रितु चौहान घर तक
- पश्चिम — रितु चौहान घर से बीएसएनएल टॉवर मानिकपुरी घर होते हुये हरिश चंद्र निषाद घर तक

#### रेल्वे लाईन पारा वार्ड क्रं. 14

- उत्तर — रेल्वे ट्रेक के पास नीरा चौहान घर से रेल्वे ट्रेक अमर महतो घर तक
- पूर्व — रेल्वे ट्रेक अमर महतो घर से उमेश चौहान घर होते हुये राजेश्वर कश्यप घर से होते हुये भोखल तालाब त्रिलोक सिंह घर तक
- दक्षिण — भोखल तालाब त्रिलोक सिंह घर से पूनम चंद पटेल घर होते हुये समीर बरेठ घर मुक्तिधाम तक
- पश्चिम — समीर बरेठ घर मुक्तिधाम से दिगम्बर सिदार घर होते हुये बाल गोविन्द घर होते हुये रेल्वे ट्रेक के पास नीरा चौहान घर तक

#### केबिन पारा वार्ड क्रं. 15

- उत्तर — बुलूदास घर रेल्वे ओवर ब्रिज से रेल्वे ट्रेक किनारे किनारे शुक्रवारा सारथी घर केबिन तालाब तक
- पूर्व — शुक्रवारा सारथी घर केबिन तालाब से बोदरो मुण्डा घर ऐश डेग डेम तक
- दक्षिण — बोदरो मुण्डा घर ऐश डेग डेम से प्राथमिक शाला होते हुये सुनील कुमार साय घर होते हुये हरि किशन पटेल घर भोखल तालाब तक
- पश्चिम — हरि किशन पटेल घर भोखल तालाब से जगत राम चौहान घर होते हुये बुलूदास घर रेल्वे ओवर ब्रिज तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्क, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-73/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-73/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

### NOTIFICATION

No. F1-73/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Kirodimalnagar, Distt. Raigarh as per schedule given Below:

1. Divides Nagar Panchayat Kirodimalnagar into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

### SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Indra Aawas Ward
2	Jindal Nagar Ward
3	Azad Nagar Ward
4	Mini Nagar Ward
5	Shouki Nagar Ward
6	Vijay Nagar East Ward
7	Vijay Nagar West Ward
8	Nanhu Nagar Ward
9	Ucchabhitthi Road Ward
10	Shanti Nagar Ward
11	Kokditarai East Ward
12	Kokditarai West Ward
13	Kirodimalnagar Ward
14	Railway Line Para Ward
15	Kebin Para Ward

**Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Kirodimalnagar****Indira Aawas, Ward No. 01**

- North :-** From Chandan Chauhan House to Pardesi Chouhan House through the Om prakash Mishra house to JSPL Boundry.
- East:-** From JSPL Boundry Om prakash Mishra House to Mahesh singh House through the Drain.
- South:-** From Drain to Aanganwadi Shivnath Panday House to Deepnarayan House through the Hariram Sidar House.
- West:-** From Hariram Sidar House to Chiraipani Border to chandan chauhan house.

**Jindal Nagar, Ward No. 02**

- North :-** From Jindal Nagar Quarter No. 12 Rajendra Rai Room to Jindal Nagar Quarter No. 01 Ramnaresh House, Water Tank through the Somprakash pal Jindal nagar Quarter to JSPL Boundry through Jindal Nagar Quarter No. 60 Chhote lal Goutam Home to Beryl STP Colony Block F JVG 81.
- East:-** From STP Colony Block F JVG 81 to STP Colony Through STP block JVG 145 Jindal Bihar fase 02.
- South :-** From Jindal Bihar fase 02 to Behind of G-type AawashTiwari House through to sureshsingh Home to Arvindgiri house
- West :-** From Arvind giri house to azad chouk main road to Jindal nagar beriy plant of side side Jindal Nagar Quarter No. 12 rajendra rai House in North.

**Azad Nagar, Ward No. 03**

- North :-** From Sarif Khan house to Shani Mandir to Yashpal House.
- East :-** From Yashpal House to Apnakirana through to wine shop.
- South :-** From wine shop to main road through main road Azad Chouk to Jyoti medical Store talabghat through to shiv chouhan House
- North :-** From shiv chouhan house to terasbai through sarif khan house

**Mini Nagar, Ward No. 04**

- North :-** From Vinod joshi house Dem side to Manikanchan SLRM Centre through Dinesh Chandra house.
- East :-** From Dinesh Chandra house to Rajkumar Karsh house thrugh Motisingh Chandra house talab side.
- South :-** From Motisingh Chandra Talab side to Near By Drain in Anshari House through Ramayan Chouk.
- West :-** From Ramayan Chouk to Vinod joshi House Dem side.

**Shouki Nagar, Ward No. 05**

- North :-** From Santosh kumar House to Dem Side Jadhav piggery house.  
**East :-** From Jadhav piggery house to Ramayan Chouk through Kishan Chamrakar house to Ramakant Madiya House to tower.  
**South :-** From Ramakant Madiya House from tower to jaishankar Sonwani house to Ganesh Chouk Main road.  
**West :-** From Jaishankar Sonwani house to Ganesh Chouk through Santosh Kumar House to Dem.

**Vijay Nagar East, Ward No. 06**

- North :-** From Amrit Jain House to Talab Side to Jivnath Mishra.  
**East :-** From Jivnath Mishra in Talab Side to Patel Medical Main road.  
**South :-** From Main Road Patel Medical to Nand Kumar Yadav house through MS Pandey House to Gouri Shankar Sahu House.  
**West :-** From Gouri Shankar Sahu House to Rashid Khan house to Amrit Jain House.

**Vijay Nagar West, Ward No. 07**

- North :-** From Mohammad Hasim Ansari House to Shrikant house.  
**East :-** From Shrikant House to Chandan Sharma house through Main Ucchabhitthi Road in Thaleswar Chouhan House.  
**South :-** From Main Ucchabhitthi Road in Thaleswar Chouhan House to Vishwakarma Febrication  
**West :-** From Vishwakarma Febrication to Dular Choudhary house to Mohammad Anshari House.

**Nanhu Nagar, Ward No. 08**

- North :-** From Rambha Rajbhar House to Kailash Vishwal House through Roshan Kirana Stor to Chhattishgarh Traders.  
**East :-** From Chhattishgarh Traders to Durga Temple in Atal Chouk.  
**South :-** From Durga Temple in Atal Chouk to Main Road through Hanuman Temple to Trilochan Sidar House.  
**West :-** From Trilochan Sidar House to Fulchand Maravi, Behind of Narayan patel House to Rambharajbhar house.

**Ucchabhitthi Road, Ward No. 09**

- North :-** From Kaushik Prasad Singh House in main Road to Ganesh Chouk to Munna Varma House.  
**East :-** From Munna Varma House to Prahlad house main road Crossed to Nageshwar House to Sohanlal Sahu house.



- South :-** From Sohanlal Sahu House to Railway Track though Madarsha Railway Track.
- West :-** From Madarsha Railway Track to Maa Ambey Clinic, sardar Chouk to Kaushik Prasad Singh House.

### Shanti Nagar, Ward No. 10

- North :-** From kamalpati buiyan House to Main Road Through Naz Fancy Stor.
- East :-** From Naz Fancy Stor to Swami Vivekananda School.
- South :-** From Swami Vivekananda School to Kundan Singh House though Dinbandhu Singh House.
- West :-** From Dinbandhu Singh House to kamalpati buiyan House.

### Kokdhitarai East, Ward No. 11

- North :-** From Murari Sidar house to Main Basti through kona Para to Tularam Chouhan house to Public toilet.
- East :-** From Tularam Chouhan house to Public toilet to Jindal Boundary wall through Bhagirathi Chouhan to Bajrangbali Temple .
- South :-** From Bhagirathi Chouhan house to Bajrangbali Temple to Govt PDS Shop Kokditarai 02.
- West :-** From Govt PDS Shop Kokditarai 02 to Murari sidar.

### Kokdhitarai West, Ward No. 12

- North :-** From Side of Amrit Complex Govt Public Health Care Center bhavan to Side of Nagar Panchayat to Mohan Chouhan house to Ram Mehar House Near By Water tank .
- East :-** From Ram Mehar House Near By Water tank to Aanand Chourashiya House through Tularam Dhaneshwar Gond to From Shanti lal Sidar to Nilambar Sidar.
- South :-** From Nilambar Sidar to Behind of New Jindal Adarsh Gramya Bharti School to Sevasa karisamiti Dhan Mandi.
- West :-** From Seva sahkari samiti Dhan Mandi to Main Road, Atal Chouk to Amrit Complex Govt Public Health Care Center bhavan.

### Kirodimalnagar, Ward No. 13

- North :-** From Harish Chandra Nishad house to Sharda Public School Dadu Dayal Temle through Play Ground to Gramya Bharti School.
- East :-** From Gramya Bharti School to Rise Mill Sant Vinobha School through PC Rai house In Railway Colony Railway Track.
- South :-** From PC Rai house In Railway Colony Railway Track to Railway Station railway trak to Ritu Chouhan House.
- West :-** From Ritu Chouhan House to BSNL Tower manikpuri House to Harish Chandra Nishad house .

**Railwayline Para, Ward No. 14**

- North :-** From Near By Railway Track Neera Chouhan House to railway Track Amar Mahto house.
- East :-** From Raiway Track Amar Mahto house to Umesh Chouhan House through Rajeshwar Kashyap house to Bhokhal Talab Trilok Singh house.
- South :-** From Bhokhal Talab Trilok Singh house to Punamchand Patel House From Sameer bareth House near by Mukti Dham.
- West :-** From Sameer bareth House near by Mukti Dham to Digambar Sidar House to Bal Govind House to Near By Railway Track Neera Chouhan House.

**Kebin Para, Ward No. 15**

- North :-** From Near By Railway Over Bridge Buludas House to Railway Trak Side-side Sukwara Sarthi house to Kebin Talab.
- East :-** From Sukwara Sarthi house Kebin Talab to Bhodro Munda House Es- Deg Dem.
- South :-** From Bhodro Munda House Es- Deg Dem to Primary School to to Sunil Kumar Sai House to Harikishan patel House, Bhokhal Talab.
- West :-** From Harikishan patel House to Bhokhal Talab to Jagat ram Chouhan House to Near By Railway Over Bridge Buludas House.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Deputy Secretary.